



04 अन्तर्जनपदीय बाइकर्स चोर अवैध असलहों एवं चोरी की रकम सहित गिरफ्तार

दिनांक 21.09.2021 को श्री शीतल प्रसाद पुत्र बरदानी प्रसाद नि0 ग्राम बिरखेरा थाना सुमेरपुर ने थाना सुमेरपुर पर लिखित सूचना दी कि दिनांक 20.09.2021 की रात्रि में कमलेश तिराहा के पास से अज्ञात चोरों द्वारा वादी के बैग से 2,81,200 रू0 कैश, लैपटाप का चार्जर, बैंक के ए0टी0एम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्रेडिट कार्ड व दुकान के अन्य कागजात व दुकान की चाभी एवं एक मोबाइल ओप्पो कम्पनी का चोरी कर लिया गया है, इस सूचना पर थाना सुमेरपुर पर मु0अ0सं0-311/21, धारा-379 आईपीसी बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। उपरोक्त घटना के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक हमीरपुर द्वारा क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सुमेरपुर व एसओजी हमीरपुर की टीम गठित की गई थी।

पुलिस टीमों द्वारा आरोपियों की तलाश की जा रही थी इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर ग्राम चन्द्रपुरवा बुजुर्ग की तरफ से आ रही दो मोटर साइकिल जिनमें 04 संदिग्ध व्यक्ति सवार थे, उनको रोकने का प्रयास किया गया तो रहे हैं, उनके द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर तमन्चे से फायर किया तथा दोनो मो0सा0 के चालकों द्वारा पीछे मुड़कर भागने का प्रयास किया गया, पुलिस टीम द्वारा सूझबूझ व साहस का परिचय देते हुये अपने को बचाते हुये चारों व्यक्तियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। जिनके कब्जे से 2,46,000/- (दो लाख छियालीस हजार रूपया) व घटना में प्रयुक्त दो अदद मो0सा0, 02 अवैध तमंचा/04 तथा घटना के बाद रेलवे क्रासिंग के पास कीचड़ में फेंका हुआ एक बैग व एक लैपटाप चार्जर व एक थम्ब स्कैनर बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सुमेरपुर में अभियोग पंजीकृत कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

पंजीकृत अभियोगों का विवरण:-

- 1) मु०अ०सं० 313/2021 धारा 307 भा०द०सं० (पुलिस मुठभेड़) थाना सुमेरपुर
- 2) मु०अ०सं० 314/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अर्जुन कुमार थाना सुमेरपुर
- 3) मु०अ०सं० 315/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम संजय वर्मा थाना सुमेरपुर

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. अर्जुन कुमार पुत्र आशाराम खटिक उम्र करीब 24 वर्ष नि० मु० चांद थोक कस्बा व थाना सुमेरपुर
2. अंकित साहू पुत्र सुरेश कुमार साहू उम्र करीब 21 वर्ष नि०मो० चांद थोक थाना व कस्बा सुमेरपुर
3. आसिक पुत्र मैकू मुसलमान उम्र करीब 20 वर्ष नि०मो० गढी वार्ड न० 3 कस्बा व थाना सुमेरपुर
4. संजय वर्मा पुत्र छोटेलाल वर्मा उम्र करीब 19 वर्ष नि० मो० बसन्त नगर वार्ड न०-5 कस्बा व थाना सुमेरपुर

वांछित अभियुक्त का विवरण:-

➤ शोभित पुत्र करन नि० मु० बसन्त नगर कस्बा व थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर

बयामदगी:-

- 1) एक अदद तमंचा 315 बोर नाजायज
- 2) दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज
- 3) एक अदद तमंचा 12 बोर नाजायज
- 4) एक अदद खोखा कारतूस 12 बोर नाजायज
- 5) एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज
- 6) 2 लाख 46 हजार रुपया कैश (चोरी किया गया)
- 7) एक बैग व एक लैपटाप चार्जर
- 8) एक अदद थम्ब स्कैनर
- 9) एक अदद मोटर साइकिल बजाज एवैन्जर रंग काला बिना नम्बर (घटना में प्रयुक्त)
- 10) एक अदद मोटर साइकिल हीरो इम्पल्स रंग लाल बिना नम्बर (घटना में प्रयुक्त)



गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1) प्र०नि० बीरेन्द्र प्रताप सिंह थाना सुमेरपुर
- 2) प्रभारी निरीक्षक एसओजी विनोद कुमार राय
- 3) निरी० क्राइम चन्द्रशेखर गौतम थाना सुमेरपुर
- 4) उ०नि० रामबाबू यादव थाना सुमेरपुर